

## राज्यस्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार

### चर्चा में क्यों?

5 जनवरी, 2022 को हैडलूम एक्स-पो भोपाल हाट बाजार में आयोजित कार्यक्रम में संत रवदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास नगिम द्वारा प्रदेश के 15 शिल्पियों को राज्यस्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया।

### प्रमुख बिंदु

- आयुक्त हथकरघा एवं रेशम सुरभि गुप्ता तथा संत रवदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास नगिम घकी प्रबंध संचालक अनुभा श्रीवास्तव ने प्रदेश के प्रसिद्ध बुनकरों तथा हस्तशिल्पियों को वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिये इन पुरस्कारों से सम्मानित किया।
- आयुक्त सुरभि गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बुनकरों की कला का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कबीर और विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- उल्लेखनीय है कि राज्यस्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को एक लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50 हजार रुपए तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 25 हजार रुपए की राशि, शॉल और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।
- कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 2018-19 के लिये प्रथम पुरस्कार घासीराम लालमणी (चंदेरी) को, द्वितीय पुरस्कार विकास बण्डे (महेश्वर) को तथा तृतीय पुरस्कार अनलि मुकाती (महेश्वर) को मिला।
- वहीं कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिये प्रथम पुरस्कार रूबीना बी खान (महेश्वर) को, द्वितीय पुरस्कार रेखाबाई कोली (चंदेरी) को और तृतीय पुरस्कार पन्नालाल खरे (महेश्वर) को प्राप्त हुआ।
- राज्यस्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिये प्रथम पुरस्कार (संयुक्त) सुगंधा जैन (इंदौर) एवं मो. काजमि खत्री (धार) को, द्वितीय पुरस्कार (संयुक्त) मो. मोहसीन छीपा (उज्जैन) एवं सुभाष पोयाम (भोपाल) को, तृतीय पुरस्कार (संयुक्त) बलदेव बागमारे (बैतूल) डॉ. राजीव नाफड़े (होशंगाबाद) को मिला।
- वहीं प्रोत्साहन पुरस्कार हयात गुट्टी (उज्जैन), मो. आसफि (उज्जैन) एवं अब्दुल करीम खत्री (धार) को प्रदान किये गए।